

जनपद बाराबंकी

दिनांक 26.03.2023

जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस द्वारा दिनांक 25/26.03.2023 को 06 वारण्टी व 08 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 35 अभियुक्तों के विरुद्ध शांतिभंग की धाराओं में कार्यवाही की गयी।

01. ➔ थाना कोठी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद -

थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.03.2023 को अभियुक्त ताज बाबू पुत्र सलामत निवासी कस्बा व थाना कोठी जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद कर थाना कोठी पर मु0अ0सं0-117/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

02. ➔ थाना जैदपुर पुलिस द्वारा में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.03.2023 को मु0अ0सं0 140/23 धारा 498a/308/342/323/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तगण 1. शोभाराम पुत्र रामकिशोर, 2. राम किशोर पुत्र मेवालाल निवासीगण ग्राम बरौली मलिक थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

03. ➔ थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना सफदरगंज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.03.2023 को मु0अ0सं0-110/2023 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त सादिक अली पुत्र याकूब अली निवासी सराय हिजरा थाना कोठी जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

04. ➔ थाना रामनगर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद नाजायज चाकू बरामद-

थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.03.2023 को अभियुक्तगण 1. रघुनाथ यादव पुत्र लच्छाराम, 2. मोहित पुत्र बुद्धू निवासीगण ग्राम गोडा देवरिया थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद अवैध चाकू बरामद कर थाना रामनगर पर मु0अ0सं0-178-179/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

05. ➔ थाना रामनगर पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद-

थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.03.2023 को अभियुक्त रामकेश पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद निवासी चाँदपुर उटखरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 180/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

06.➡ थाना रामनगर पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 105 अवैध स्मैक बरामद-

थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.03.2023 को अभियुक्त छंगा पुत्र जगू लोनिया निवासी गुरुदीन पुरवा मजरे बसन्तपुर मझारा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 105 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर मु0अ0सं0 182/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।